

## कक्षा - 3

### पाठ - 14 ( सबसे अच्छा पेड़ )

#### कठिन शब्द

1. तलाश
2. छाँह
3. झोंपड़ी
4. बारिश
5. टहनियाँ
6. प्याला
7. जटाओं
8. डोरियाँ
9. चटाइयाँ
10. खोपरे
11. कुटिया

#### शब्द - अर्थ

1. तलाश - खोज

2. डोरियाँ - रस्सियाँ
3. पेरकर - तोड़कर
4. झोपड़ी - कुटिया

वचन बदलो

1. घर - घरों
2. झोंपड़ी - झोंपड़ियाँ
3. गुब्बारा - गुब्बारे
4. शहर - शहरों
5. कटोरा - कटोरे

विलोम शब्द

1. छाँह - धूप
2. सुखाकर - भिगोकर
3. कच्चा - पक्का
4. जमीन - आसमान
5. मजबूत - हल्की
6. बेचना - खरीदना

प्रश्न - उत्तर

प्रश्न 1 . तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे ?

उत्तर - तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे !

प्रश्न 2 . घर की तलाश में निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे ?

उत्तर- घर की तलाश में निकलने से पहले वे इककठे एक ही घर में रहते होंगे !

प्रश्न 3. पहले भाई ने अपना घर कहाँ बनाया ?

उत्तर - पहले भाई ने अपना घर आम के पेड़ के नीचे बनाया !

प्रश्न 4. . पहले भाई को आम के पेड़ के क्या फायदे नजर आए ?

उत्तर - पहले भाई ने सोचा की जब आम कच्चे होंगे तब हम आचार बनाएँगे , और जब आम पाक जाएंगे तो हम मीठे -मीठे आम खाएँगे !

प्रश्न 5 . दूसरे भाई को केले के पेड़ के क्या फायदे नजर आए ?

उत्तर - दूसरे भाई के अनुसार केले के पेड़ से उन्हें मीठे -मीठे केले और बड़े - बड़े पत्ते प्राप्त होंगे , केले वो खाएँगे और पत्ते उन्हें बारिश आदि से बचाएँगे !

प्रश्न 6 . तीसरे भाई को नारियल के पेड़ के क्या फायदे नजर आए ?

उत्तर - तीसरे भाई के अनुसार नारियल की जटाओं से मोटी डोरियाँ और डोरियों से चटाइयाँ बनाकर उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है !

प्रश्न 7 . नारियल के पेड़ के दूसरे क्या -क्या फायदे हैं ?

उत्तर - नारियल की गरी को सुखाकर खोपरा तैयार किया जा सकता है , फिर खोपरे को पेरकर गोले का तेल और साबुन जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं !